

## प्रेस नोट दिनांक 02-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

**जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा वर्ष 2022 में दिनांक 01-01-2022 से दिनांक 31-12-2022 तक किये गये सराहनीय कार्यों/उपलब्धियों का विवरण-**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में जनपद में शान्ति-व्यवस्था कायम रखते हुये अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध व कार्यवाही करते हुए जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा फीडबैक सेल, आपरेशन शिकंजा, आपरेशन त्रिनेत्र व यू0पी0-112 इत्यादि के सम्बंध में सराहनीय कार्य किया गया। जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के अभियान चलाकर जनपद की कानून-व्यवस्था में व्यापक सुधार किये गये। इसके अतिरिक्त पुलिस व पुलिस परिवार के कल्याणार्थ विभिन्न कार्य किये गये। जिसका विवरण निम्नवत है-

### फीडबैक सेल का गठन -

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा फीडबैक सेल का गठन कर (PAR System) पब्लिक अप्रूवल सिस्टम के माध्यम से लोगो द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना-पत्रों(आई0जी0आर0एस0), एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0 के वादी, पासपोर्ट आवेदक से दूरभाष पर वार्ता कर तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ट्वीटर व डायरेक्ट पोल कर आम जन से पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही/आचरण/व्यवहार के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है। जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली में निरन्तर सुधार हो रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश स्तर पर IGRS निस्तारण Ranking में जनपदीय पुलिस पिछले 02 माह से टाप-5 में है। माह जुलाई से माह नवम्बर तक की मासिक जनपदीय ओवरआल रेटिंग का प्रतिशत माह जुलाई में 68.53, माह अगस्त में 79.87, माह सितम्बर में 82.07, माह अक्टूबर में 83.78 तथा माह नवम्बर में 83.82 रहा। जिसमें प्रत्येक माह लगातार सुधार हो रहा है।

**जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2022 में सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर कुल 281 अभियुक्तों को सजा दिलाया गया-**

सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा वर्ष 2022 में माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर कुल 281 अभियुक्तों को सजा दिलाया गया जिसमें पॉक्सो एक्ट के 04 अभियुक्तों को सजा कराया गया, जिसमें से एक को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदण्ड, एक को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा एक को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया, तथा चौथे अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं रुपये 5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। **बलात्कार** के 11 अभियुक्तों

को सजा कराया गया। तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास व 25000-25000 का अर्थदण्ड, दो को 07-07 वर्ष की कठोर कारावास व 7000-7000 अर्थदण्ड एक को 8 वर्ष की कठोर कारावास की सजा व 25000 अर्थदण्ड, एक को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा व 20000/- तीन को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा व 5000 अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया व एक बाल अपचारी को 3 वर्ष के सुधार गृह भेजे जाने से दण्डित कराया गया। **हत्या के** 09 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 75000, 26000, 25000, 27000, 27000, 40000, 40000, 20000 व 20000 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। **दहेज मृत्यु के** 09 अभियुक्त में से को 06 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 18000 रुपये से दण्डित कराया गया तथा 02 अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 15000/- 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का क 22 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। **गैंगेस्टर एक्ट के** 08 अभियुक्तों को सजा कराया गया। **एक** को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 हजार रुपये अर्थदण्ड, **01** को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड व **01** अन्य को 03 वर्ष 08 माह 10 दिन का कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड, **01** को 02 वर्ष 04 माह का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा **दो** अभियुक्तों को दो-दो वर्ष का कारावास व 10000-10000 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 10000 रुपये प्रत्येक के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। **धारा 294** भा0द0वि0 के 48 अभियुक्तों अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। अन्य भा0द0वि0 के 85 अभियुक्तों, एनडीपीएस अधिनियम के 39 अभियुक्तों एवं अन्य अधिनियम के 39 अभियुक्तों को सजा कराया गया।

### आपरेशन त्रिनेत्र -

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व घटना के अनावरण में सहयोग आदि हेतु जन-सहयोग से जनपद सिद्धार्थनगर के सभी थानों में 56 चौराहो/स्थानों पर आपरेशन त्रिनेत्र के तहत जनसहयोग से 206 सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित कराये गये। जिसमें सर्वाधिक थाना शिवनगर डिडई में 07 स्थानों में 26 कैमरे, थाना मोहाना में 06 स्थानों पर 21 कैमरे, थाना सिद्धार्थनगर में 05 स्थानों पर 20 कैमरे, थाना त्रिलोकपुर में 05 स्थानों पर 18 कैमरे, थाना शोहरतगढ़ में 04 स्थानों पर 16 कैमरे, थाना कठेला समयमाता में 03 स्थानों पर 12 कैमरे तथा थाना डुमरियागंज में 03 स्थानों पर 11 कैमरे स्थापित किये गये हैं। मुख्यालय के मुख्य चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे पुलिस द्वारा लगवाकर निरन्तर मानीटरिंग की जा रही है।

हर घर कैमरा अभियान के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के थानान्तर्गत घर/दुकानों पर 310 सीसीटीवी कैमरे लगवाये गये हैं जिसमें सर्वाधिक थाना लोटन से 28 कैमरे, थाना बांसी से 25 कैमरे, थाना भवानीगंज से 25 कैमरे, थाना इटवा से 25 कैमरे, थाना डुमरियागंज से 22 कैमरे, थाना उसका बाजार से 20 कैमरे लगवाये गये हैं जिनके द्वारा निरन्तर घटना का अनावरण व रोकथाम में सहायता प्राप्त हो रहा है।

### आपरेशन कवच-

## **UP-112 के द्वारा कृत कार्यवाही-**

सिद्धार्थनगर पुलिस यू0पी0-112 द्वारा लगातार भ्रमणशील रहते हुए कालर को त्वरित गति से पहुंचकर मदद की जा रही है। प्रदेश स्तर पर जनपद सिद्धार्थनगर UP-112 का औसत रिस्पान्स टाइम 07 मिनट 51 सेकण्ड का है और वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश स्तर पर पिछले 06 माह से टाप-5 में है। यू0पी0-112 द्वारा समय समय पर विभिन्न जनजागरूकता अभियान चलाकर आम जन मानस को जागरूक किया जाता है। मोबाइल में बैलेंस न होने पर भी इमरजेन्सी में 112 नम्बर डायल कर त्वरित सेवा प्राप्त हो जाती है। जनपद में तीन पी0आर0वी0 सिद्धार्थनगर, शोहरतगढ़ व डुमरियागंज में महिला पी0आर0वी0 24 घण्टें कार्य कर रही है जो किसी भी समय महिलाओं को आवश्यकतानुसार त्वरित कार्यवाही कर सुरक्षा/सहायता का एहसास कराती थी। जनपद में कुल 17 दो-पहिया व 30 चार-पहिया पी0आर0वी0 24 घण्टे आम जन की सहायता कर रही है। उक्त वाहनों पर चुनिंदा जवानों को प्रशिक्षण देकर तैनात किया गया है। यू0पी0 112 की सेवा अब व्हाट्स एप, ट्वीटर, फेसबुक द्वारा ली जा सकती है।

## **प्रेस नोट दिनांक 02.01.2023थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर**

**थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा मिशन शक्ति के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश में जयराम, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में दीपक कुमार, थानाध्यक्ष थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 02.01.2023 को महिला कांस्टेबल साधना पासवान व महिला कॉन्स्टेबल नीलम यादव द्वारा चिल्हिया में बालिकाओं एवम महिलाओं को एकत्रित कर उनके सम्मान एवं स्वालंबन मिशन शक्ति अभियान के दृष्टिगत सरकार द्वारा चलाये गये मिशन शक्ति अभियान एवं महिला सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं, सुरक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य एवं महिला सम्बन्धी अधिकारों तथा साइबर अपराध की रोकथाम के बारे में जानकारी दी गयी और शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन न0 -112,181,1076,1090,1098,102,108 आदि के बारे में भी बताया गया तथा 1090 पम्पलेट का वितरण किया गया।

**प्रेस नोट- दिनांक 02.01.2023 थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।**

**थाना पथरा बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया**

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में राजेश कुमार तिवारी, प्रभारी निरीक्षक थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 02-01-2023 को पथरा बाजार पुलिस द्वारा वाद स० 1142/20 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)द 3(2) (va) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित 01 एक नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01. प्रदीप मौर्या पुत्र मुरली मौर्या साकिन अमौना तिवारी थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थ नगर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

01. उ०नि० रबिन्द्र प्रसाद निषाद थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

02. आरक्षी बिपिन कुमार मिश्रा थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

03. आरक्षी अनुपम मौर्या थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

**प्रेस नोट दिनांक -02.01.2023 थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर**

**थाना डुमरियागंज पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी 25000/-रु0 के ईनामिया वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में देवनन्दन उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 02.01.2023 को थाना डुमरियागंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 288/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित 01 नफर वांछित/25000 रु0 का ईनामिया अभियुक्त को कचेहरी गेट जनपद सिद्धार्थनगर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01. जुबेर अली पुत्र मो0 अनीस ग्राम जबजौआ थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

01. प्रभारी निरीक्षक श्री देवनन्दन उपाध्याय थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. निरीक्षक श्री वकील पाण्डेय थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. उप निरी0 श्री रणजय सिंह थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
04. मुख्य आरक्षी विकास सिंह थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
05. मुख्य आरक्षी मदन राय थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
06. मुख्य आरक्षी अवधेश कुमार वर्मा थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
07. आरक्षी सुशील यादव थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
08. आरक्षी दिनेश यादव थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
09. आरक्षी विशाल सिंह थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
10. आरक्षी तेज बहादुर यादव थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
11. आरक्षी धीरज प्रजापति थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
12. आरक्षी अमन प्रतीक दूबे थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

**प्रेस नोट- दिनांक 02.01.2023 थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर**

**थाना भवानीगंज पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया**

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में गौरव सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 02.01.2023 को थाना भवानीगंज पुलिस द्वारा वाद सं0729/2018 धारा 138 एन आई एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय भेजा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

आबिद हुसैन पुत्र मजहरुद्दीन ग्राम मसीहुद्दीन चक थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

01-उ0नि0 परमानंद गौड़ थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

02-आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

03- मुख्य आरक्षी रोशन अली थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट- दिनांक02-01-2023 थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर

थाना डुमरियागंज पुलिस द्वारा महिला सशक्तिकरण /मिशन शक्ति/एंटीरोमियो चेकिंग अभियान महिलाओं और बालिकाओं को किया गया जागरूक

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता/ मिशन शक्ति अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में देवनन्दन उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक थाना डुमरियागंज के नेतृत्व में आज दिनांक 02.01.2023 न में मुख्य आरक्षी रमजान अली तथा महिला बीट पुलिस अधिकारी महिला मुख्य आरक्षी संगीता मौर्या, महिला आरक्षी उर्मिला देवी द्वारा थाना क्षेत्र के कस्बा डुमरियागंज, में शिक्षा एवम् सुरक्षा ,महिलाओं , बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के प्रति तथा महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चार्डिल्ड लाइन के सम्बन्ध में जानकारी दी गई इसके साथ-साथ छात्राओं को निर्भीक होकर शिक्षित एवम् सक्षम बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।

प्रेस-नोट दिनांक 02.01.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर नव युवकों, महिलाओं और लड़कियों को महिला सुरक्षा व मिशन शक्ति के संबंध में जानकारी दी गई तथा मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही हेतु चेकिंग की गयी।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 02.01.2023 को शक्ति मोबाइल/प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर के उद्यान पार्क, रेलवे स्टेशन, सिंहेश्वरी मंदिर, स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गयी ।

**एण्टी रोमियों टीम का विवरण-**

- 01- महिला उ0नि0 पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02- आरक्षी राकेश यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

**प्रेस नोट- दिनांक 02-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर**

**ऑपरेशन प्रहार के तहत 09 अपराधी के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी ।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत आज दिनांक 02-01-2023 को शरीर संबंधी अपराध, गोवध व आबकारी अधिनियम आदि में संलित 09 नफर अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के थाना शिवनगर डिडई, जोगिया उदयपुर, शोहरतगढ़, बांसी पर धारा (3)3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की कार्यवाही की गयी ।

**निम्नलिखित अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी-**

- 1-बिलाल अहमद पुत्र अकबाल निवासी ग्राम करही मस्जिदिया थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 26 वर्ष।
- 2- सुरेश पुत्र राजमन निवासी ग्राम जगमोहनी थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 32 वर्ष
- 3- रास बिहारी पुत्र अर्जुन निवासी ग्राम जगमोहनी थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 28 वर्ष
- 4- दिलीप गिरी उर्फ लालू गिरी पुत्र गौरी गिरी निवासी ग्राम इमिलिया जनूबी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 21 वर्ष ।
- 5- ओम प्रकाश गिरी पुत्र गौरी गिरी निवासी ग्राम इमिलिया जनूबी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 20 वर्ष
- 6- अशफ़ी पुत्र राजाराम निवासी मोहल्ला पन्तनगर कस्बा व थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 26 वर्ष ।
- 7- खिलाड़ी उर्फ संदेश पुत्र रामपूजन निवासी गौरी थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 24 वर्ष।
- 8- सूर्य प्रताप पुत्र राम प्रकाश निवासी गौरी थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 21 वर्ष।
- 9- बलराम पुत्र ओम प्रकाश निवासी देवीयापुर पशुपतिनगर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 35 वर्ष।

**प्रेस नोट दिनांक 02.01.2023 थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।**

**‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत थाना खेसरहा पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल 13 वाहनों की नीलामी कराकर मय GST कुल 94,518/-रु0 के राजस्व की प्राप्ति ।**

**सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अब तक कुल 266 वाहनों की नीलामी कर 29,40,920/-रु0 राजस्व प्राप्त किया गया ।**

प्रायः थाना परिसर व परिसर के बाहर बेतरतीब तथा बेहिसाब संख्या में दो पहिया व चार पहिया वाहन खड़े रहते हैं। इन वाहनों से थाने की काफी अधिक भूमि व्यर्थ हो जाती है व दैनिक थाना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जिले के सभी थानों के भ्रमण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर में लम्बे समय से काफी संख्या में लावारिस, मालमुकदमाती व एम0वी0 एक्ट में सीजशुदा वाहन खड़े हैं। जो धूप, गर्मी, बरसात की वजह से जंग लगकर धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। जिस कारण से न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ ही राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हो रही है। वाहनों के क्षरण के कारण थाना परिसर में रहने व आने-जाने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना बनी रहती है। थाना परिसर में लम्बे समय से खड़े वाहनों के सम्बन्ध में समय-समय पर न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

मा0 उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) सं0 2745/2002 सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में थाने में खड़े वाहनों के निस्तारण हेतु अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में थाने पर खड़े माल मुकदमाती व अन्य वाहनों के निस्तारण हेतु जनपद सिद्धार्थनगर में ‘आपरेशन क्लीन’ 14 जुलाई 2022 से प्रारम्भ किया गया। ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत सभी थानों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध लक्ष्य दिया गया। सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है।

दिनांक 02.01.2023 को सन्त कुमार, उप जिलाधिकारी(न्यायिक) सिद्धार्थनगर, देवी गुलाम, क्षेत्राधिकारी बांसी, बृजेश कुमार, आर0आई0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सिद्धार्थनगर की गठित कमेटी द्वारा थाना खेसरहा में लम्बित माल मुकदमाती से सम्बन्धित सीज शुदा कुल 13 वाहनों जिसमें 12 दोपहिया वाहन (मालमुकदमाती- 05, माल लावारिश- 01, एम0वी0 एक्ट में सीज – 06) 01 अदद चार पहिया वाहन माल मुकदमाती की नीलामी थाना खेसरहा परिसर में विधि सम्मत तरीके से करायी गयी। जिससे कुल नीलामी की धनराशि मय GST कुल 94,518/-रु0 का राजस्व प्राप्त हुआ। जिसको राजकीय कोषागार में जमा कराया जायेगा।

पूर्व में थाना शोहरतगढ़ से 98 वाहन, डुमरियागंज से 93 वाहन, चिल्हिया से 45 वाहन, जोगिया उदयपुर से 09 वाहन, मिश्रौलिया से 04 वाहन थाना इटवा से 02 वाहन, शिवनगर डिडई से 02 वाहनों की नीलामी करायी जा चुकी है। अब तक कुल 266 वाहनों की नीलामी से कुल 29,40,920/- रु0 राजस्व की प्राप्ति हुई है।

